

दिनांक 02 अक्टूबर 2020

दिनांक 02 अक्टूबर 2020 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पावटा साहिब की राष्ट्रीय सेवा

योजना इकाई एवम रोवर रैंजर्स द्वारा महाविद्यालय में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर एक दिवसीय शिविर का

आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर वरिष्ठ प्रोफेसर श्री चन्द्रकान्त, एन0 एस0 एस0 प्रभारी प्रो रीना चौहान एवं प्रो स्वामीनाथ चौहान , रोवर & रैंजर इंचार्ज प्रो प्रदीप तोमर व प्रो सोनिया मोहिल ने शिविर की शुरुआत में गांधी जी को पुष्प अर्पित करके गांधी जी के जीवन मूल्यों के बारे में स्वयंसेवकों को बताया। प्रो0 चन्द्रकान्त ने स्वयंसेवकों को खुद में आत्मविश्वास व इंसानियत कायम रखने के लिए गांधी जी की जीवनी पढ़ने को प्रेरित किया । प्रो0 रीना चौहान ने स्वयंसेवकों को कहा कि यदि वे समाज को बदलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत गांधीवादी विचारधारा अपनाने के साथ खुद को बदलने से करनी होगी। स्वयंसेवकों ने इस अवसर पर ने एन0 एस0एस0 वाटिका, कैंटीन क्षेत्र, सीमा की दीवार, बोटैनिकल उद्यान और कॉलेज के बाहरी क्षेत्र की सफाई की। उन्होंने कॉलेज के बगीचों, पानी क्षेत्र और कॉलेज की बाहरी सीमा से घास उखाड़ी तथा सीमा दीवार पर महात्मा गांधी व स्वच्छता संबंधी पेंटिंग बनाई। । शिविर में 15 स्वयंसेवकों ने भाग लिया जिसमें मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का समय समय पर इस्तेमाल करके कोरोना से बचाव हेतु सभी नियमों का पालन किया गया।

साथ ही गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर पोस्टर मेकिंग, ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता तथा गांधीवादी विचारधारा पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में कुमारी निशा (बी0एस0सी0 द्वितीय वर्ष), रमता (बी0ए0 तृतीय) द्वितीय, तथा जसवीर कौर (बी0एस0सी0 प्रथम) तृतीय स्थान पर रही। भाषण प्रतियोगिता में शीतल (बी0 एस0 सी0 तृतीय वर्ष), वंदना (बी0 एस0 सी0 द्वितीय वर्ष) व काजल शर्मा (बी0 ए0 तृतीय वर्ष) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः स्थान पर रही। इसी कड़ी में गांधी जयंती की संध्या पर स्वयंसेवकों की एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता प्राचार्या डॉ वीना राठौर ने की और इसमें डी0 एफ0 ओ0 नाहन डॉ प्रदीप ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। डॉ वीना राठौर ने संगोष्ठी की शुरुआत में महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की । उन्होंने कहा कि भारत निर्माण में इन दोनों ही नेताओं का बहुमूल्य योगदान रहा है। डॉ प्रदीप शर्मा ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का अर्थ सिर्फ मारपीट से नहीं है अपितु हर वो विचार जिससे किसी के प्रति नकारात्मक विचार पैदा हो, वो हिंसा है और जो हिंसा का विरोध ना कर पाए वो सबसे बड़ा कायर है। उन्होंने उनके जीवन के कई उदाहरण देकर विद्यार्थियों को गांधी जी की जीवनी पढ़ने हेतु प्रेरित किया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ वीना राठौर ने अंत में मुख्य वक्ता श्री प्रदीप शर्मा जी का धन्यवाद किया और महाविद्यालय की दोनों इकाइयों के प्रभारियों को गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों के सफल आयोजन पर बधाई दी । उन्होंने स्वयंसेवकों को अपनी जीवनशैली गांधीवादी विचारों के अनुसार ढालने का सुझाव देते हुए उनके कार्यों की सराहना की। अंत में प्रो स्वामीनाथ ने संगोष्ठी का औपचारिक रूप से समापन किया।

इस अवसर पर एन0 एस0 एस0 प्रभारी प्रो रीना चौहान एवं प्रो स्वामीनाथ चौहान , रोवर&रैंजर इंचार्ज प्रो प्रदीप तोमर व प्रो सोनिया मोहिल के साथ तालिब, विक्रम,सहील, वंदना, जसप्रीत कौर, सिमरन कौर, रमता, पारस, काजल, खुशबू, गुरलीन, पूजा ठाकुर, सुभाष, प्रतीक, उस्मान, दलीप, दीप्ति, शिवानी, प्रतिभा, रवीना, दीपिका इत्यादि राष्ट्रीय सेवा योजना तथा रोवर & रैंजर्स के स्वयंसेवक मौजूद रहे।

प्राचार्य



का भा भागादारा रहा। रहता। ... का लहर ... अपना प्लस ... चुक है। डा. ... संचालन का सुअवसर मिला। माध्यम से अटल टनल के उद्वहन समारोह को देखा।

दिव्य हिमाचल

शीतल के बोल सबसे अनमोल

पांवटा साहिब में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कालेज में चला प्रतियोगिता का दौर

कार्यालय सवाटदाता-पांवटा साहिब

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं रोवर एंड रैंजर्स द्वारा महाविद्यालय में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर पोस्टर मेकिंग, ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता तथा गांधीवादी विचारधारा पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में निशा (बीएससी द्वितीय वर्ष), रमता (बीए तृतीय) द्वितीय तथा जसवीर कौर (बीएससी प्रथम) तृतीय

स्थान पर रही। भाषण प्रतियोगिता में शीतल (बीएससी तृतीय वर्ष), वंदना (बीएससी द्वितीय वर्ष) व काजल शर्मा (बीए तृतीय वर्ष) क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही। इसी कड़ी में गांधी जयंती की संख्या पर स्वयंसेवकों की एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्या डा. वीना राठीर ने की। इस अवसर पर डीएफओ नाहन डा. प्रदीप ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। डा. वीना राठीर ने संगोष्ठी की शुरुआत में महात्मा गांधी च पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादूर

योगदान रहा पाए वो सबसे बड़ा काम है। उन्होंने उनके जीवन के कई उदाहरण देकर विद्यार्थियों को गांधी जी की जीवनी पढ़ने हेतु प्रेरित किया। महाविद्यालय की प्राचार्या डा. वीना राठीर ने अंत में मुख्य वक्ता प्रदीप शर्मा का धन्यवाद किया और महाविद्यालय की दोनों इकाइयों के प्रभारियों को गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों के सफल आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने स्वयंसेवकों को अपनी जीवनशैली गांधीवादी विचारों के अनुसार ढालने का सुझाव देते हुए उनके कार्यों को

सरहना की। अंत में प्रो. स्वामीनाथ ने संगोष्ठी का औपचारिक रूप से समापन किया। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी प्रो. रीना चौहान एवं प्रो. स्वामीनाथ चौहान, रोवर एंड रैंजर इंचार्ज प्रो. प्रदीप तोमर व प्रो. सोनिया मोहिल के साथ तालिब, विक्रम, सहील, वंदना, जसप्रीत कौर, सिमरन कौर, रमता, पारस, काजल, खुशबू, गुरलीन, पूजा ठाकुर, सुभाष, प्रतीक, उस्मान, दलीप, दीप्ति, शिवानी, प्रतिभा, रवीना, दीपिका इत्यादि राष्ट्रीय सेवा योजना तथा रोवर एंड रैंजर्स के स्वयंसेवक मौजूद रहे।



\





